

## \*प्रेस विज्ञाप्ति\*

### \*कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज\*

**\*दिनांक- नवम्बर 03, 2020\***

\*यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-\* जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञाप्ति, सवारी गाड़ियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर \*130 वाहनों का चालान , 29 वाहनों से कुल 14800/-रुपया शमन शुल्क वसूल\* किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।

\*कोरोना वायरस के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\* श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर बिना मास्क लगाये घुमने वालों पर तथा सोशल डिस्टेन्सिंग का उल्लंघन करने वालों पर धारा \*188 भा0द0वि0 के अन्तर्गत कुल- 06\* व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी व \*मास्क न लगाने वाले कुल- 47 व्यक्तियों से 4700/- रुपये शमन शुल्क\* वसुला गया।

\*शान्ति भंग की आशंका के महेनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\* जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से \*कुल- 33 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार\* कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

\*30 प्र० खनिज परिहान नियमावती व खान एवं खनिज विनियमन अधि० व लोक सम्पति क्षति निवारण अधि० के अंतर्गत की गयी कार्यवाही\*-  
\*थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\* अभियुक्त सुनील गुप्ता पुत्र रामचन्द्र नि�० खोन्हौली थाना निचलौल मह० जनपद महाराजगंज मे अभियुक्त द्वारा बिना अनुमति के बालू खनन कर छिपाने पर थाना स्थानीय पर \*मु0अ0सं0- 469/20, धारा- 3/57 उ० प्र० खनिज परिहान नियमावती 70 खान अधि० 4/21 खान एवं खनिज विनियमन अधि० व 3/5 लोक सम्पति क्षति निवारण अधि० का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा० न्या० प्रेषित किया गया।

\*विवेचनाओं का निस्तारण-\* पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए \*कुल-07\* विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

\*जनपद में 02/03-11-2020 को विभिन्न अपराधों में कुल- 34 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।\*